

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 फरवरी 2019—माघ 22, शक 1940

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11/12 फरवरी 2019

फा. क्र. 21-वि-निर्वा.-चार-2019-39.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं एवं उनका अंग्रेजी रूपान्तर सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाना है :—

1. क्रमांक 434-म.प्र-लो.स.2019, दिनांक 8 फरवरी 2019
2. क्रमांक 434-म.प्र-लो.स.2019 (1), दिनांक 8 फरवरी 2019

व्ही. एल. कान्ताराव, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001
नई दिल्ली, दिनांक 08 फरवरी, 2019—19 माघ, 1940 (शक)

अधिसूचना

सं 434/म0प्र0-लो0स0/2019 :- भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और समय समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 434/म0प्र0-लो0स0/2014 दिनांक 24 फरवरी, 2014 के अधिक्रमण में, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के परामर्श से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकार के अधिकारी को, ऐसे अधिकारी के सामने, यथा-विनिर्दिष्ट उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में मध्य प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है:-

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या तथा नाम	रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
1 - मुरैना	कलेक्टर, मुरैना
2 - भिण्ड (अ.जा.)	कलेक्टर, भिण्ड
3 - ग्वालियर	कलेक्टर, ग्वालियर
4 - गुना	कलेक्टर, शिवपुरी
5 - सागर	कलेक्टर, सागर
6 - टीकमगढ़ (अ.जा.)	कलेक्टर, टीकमगढ़
7 - दमोह	कलेक्टर, दमोह
8 - खजुराहो	कलेक्टर, पन्ना
9 - सतना	कलेक्टर, सतना
10 - रीवा	कलेक्टर, रीवा
11 - सीधी	कलेक्टर, सीधी
12 - शहडोल (अ.ज.जा.)	कलेक्टर, अनूपपुर

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या तथा नाम	रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)
13 - जबलपुर	कलेक्टर, जबलपुर
14 - मण्डला (अ.ज.जा.)	कलेक्टर, मण्डला
15 - बालाघाट	कलेक्टर, बालाघाट
16 - छिन्दवाड़ा	कलेक्टर, छिन्दवाड़ा
17 - होशंगाबाद	कलेक्टर, होशंगाबाद
18 - विदिशा	कलेक्टर, रायसेन
19 - भोपाल	कलेक्टर, भोपाल
20 - राजगढ़	कलेक्टर, राजगढ़
21 - देवास (अ.जा.)	कलेक्टर, शाजापुर
22 - उज्जैन (अ.जा.)	कलेक्टर, उज्जैन
23 - मंदसौर	कलेक्टर, मंदसौर
24 - रतलाम (अ.ज.जा.)	कलेक्टर, झाबुआ
25 - धार (अ.ज.जा.)	कलेक्टर, धार
26 - इन्दौर	कलेक्टर, इन्दौर
27 - खरगौन (अ.ज.जा.)	कलेक्टर, खरगौन
28 - खण्डवा	कलेक्टर, खण्डवा
29 - बैतूल (अ.ज.जा.)	कलेक्टर, बैतूल

आदेश से,
 अनुज जयपुरियार
 (अनुज जयपुरियार)
 प्रधान सचिव
 भारत निर्वाचन आयोग

NOTIFICATION

No. 434/MP-HP/2019:- The Election Commission of India, in exercise of powers conferred by Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification No. 434/MP-HP/2014 dated 24th February, 2014 as amended from time to time, hereby designates, in consultation with Government of the state of Madhya Pradesh, the Officer of the Government specified in column (2) of the Table below as the Returning Officer of the Parliamentary Constituency, in the State of Madhya Pradesh and as specified in column (1) of the said table against such Constituency:-

TABLE

Serial No. & Name of the Parliamentary Constituency.	Returning Officer
(1)	(2)
1 - Morena	Collector, Morena
2 - Bhind (SC)	Collector, Bhind
3 - Gwalior	Collector, Gwalior
4 - Guna	Collector, Shivpuri
5 - Sagar	Collector, Sagar
6 - Tikamgarh (SC)	Collector, Tikamgarh
7 - Damoh	Collector, Damoh
8 - Khajuraho	Collector, Panna
9 - Satna	Collector, Satna
10 - Rewa	Collector, Rewa
11 - Sidhi	Collector, Sidhi

Serial No. & Name of the Parliamentary Constituency.	Returning Officer
(1)	(2)
12 - Shahdol (ST)	Collector, Anuppur
13 - Jabalpur	Collector, Jabalpur
14 - Mandla (ST)	Collector, Mandla
15 - Balaghat	Collector, Balaghat
16 - Chhindwara	Collector, Chhindwara
17 - Hoshangabad	Collector, Hoshangabad
18 - Vidisha	Collector, Raisen
19 - Bhopal	Collector, Bhopal
20 - Rajgarh	Collector, Rajgarh
21 - Dewas (SC)	Collector, Shajapur
22 - Ujjain (SC)	Collector, Ujjain
23 - Mandsour	Collector, Mandsaur
24 - Ratlam (ST)	Collector, Jhabua
25 - Dhar (ST)	Collector, Dhar
26 - Indore	Collector, Indore
27 - Khargone (ST)	Collector, Khargone
28 - Khandwa	Collector, Khandwa
29 - Betul (ST)	Collector, Betul

By Order



(ANUJ JAIPURIAR)
 PRINCIPAL SECRETARY
 ELECTION COMMISSION OF INDIA

अधिसूचना

सं 434/म0प्र0-लो0स0/2019(1):- भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और समय समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 434/म0प्र0-लो0स0/2014 दिनांक 24 फरवरी, 2014 के अधिक्रमण में, संलग्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के अधिकारी/अधिकारियों को, उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में निर्दिष्ट मध्य प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यों के निर्वहन में, उनकी सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है:-

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)	(3)
1- मुरैना	1- श्योपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), श्योपुर
	2- विजयपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विजयपुर
	3- सबलगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सबलगढ़
	4- जौरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जौरा
	5- सुमावली	डिप्टी कलेक्टर, मुरैना
	6- मुरैना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुरैना
	7- दिमनी	डिप्टी कलेक्टर, मुरैना
	8- अम्बाह (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बाह
2- भिण्ड (अ.जा.)	9- अट्टेर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अट्टेर
	10- भिण्ड	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भिण्ड
	11- लहार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लहार
	12- मेहगांव	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेहगांव
	13- गोहद (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोहद
	20- सेवदा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सेवदा
	21- भाण्डेर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाण्डेर
	22- दतिया	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दतिया

3- ग्वालियर	14- ग्वालियर ग्रामीण	डिप्टी कलेक्टर, ग्वालियर	
	15- ग्वालियर	अपर कलेक्टर, ग्वालियर	
	16- ग्वालियर पूर्व	संयुक्त कलेक्टर, ग्वालियर	
	17- ग्वालियर दक्षिण	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), (शहर-लश्कर) ग्वालियर	
	18- भितरवार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भितरवार	
	19- डबरा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा	
	23- करैरा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), करैरा	
	24- पोहरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पोहरी	
	4- गुना	25- शिवपुरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शिवपुरी
26- पिछोर		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर	
27- कोलारस		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोलारस	
28- बामोरी		डिप्टी कलेक्टर, गुना	
29- गुना (अ.जा.)		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुना	
32-अशोकनगर (अ.जा.)		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अशोकनगर	
33- चंदेरी		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चंदेरी	
34- मुगावली		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुगावली	
5- सागर		35- बीना (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बीना
		36- खुरई	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुरई
	37- गुरखी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राहतगढ़	
	40- नरयावली (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर	
	41- सागर	अपर कलेक्टर, सागर	
	146- कुरवाई (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरवाई	
	147-सिरौज	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिरौज	
	148- शमशाबाद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शमशाबाद	
	6- टीकमगढ़ (अ.जा.)	43- टीकमगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़
44- जतारा (अ.जा.)		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जतारा	
45- पृथ्वीपुर		अपर कलेक्टर, निवाड़ी	
46- निवाड़ी		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), निवाड़ी	
47- खरगापुर		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बल्देवगढ़	
48- महाराजपुर		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नौगांव	
51- छतरपुर		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छतरपुर	
52- बिजावर		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर	
7- दमोह		38- देवरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवरी
	39- रहली	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रहली	
	42- बण्डा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बण्डा	
	53- मलहरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़ामलहरा	
	54- पथरिया	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पथरिया	
	55- दमोह	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दमोह	
	56- जयेरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तेन्दुखेडा	
57- हटा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हटा		

8- खजुराहो	49- चादला (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकूशनगर
	50- राजनगर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर
	58- पवई	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पवई
	59- गुन्नौर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गुन्नौर
	60- पन्ना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पन्ना
	92- विजयराघवगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विजयराघवगढ़
	93- गुडवारा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटनी
	94- बहोरीबंद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बहोरीबंद
9- सतना	61- चित्रकूट	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मझगावा
	62- रैगोंव (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रघुराजनगर
	63- रातना	अपर कलेक्टर (निकारा), सतना
	64- नागोद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नागोद
	65- मैहर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैहर
	66- अमरपाटन	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अमरपाटन
	67- रामपुर बघेलान	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामपुर बघेलान
10- रीवा	68- सिरगौर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिरगौर
	69- सोगरिया	डिप्टी कलेक्टर, रीवा
	70- त्योथर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), त्योथर
	71- गरुगंज	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हनुमना
	72- देगतालाब	संयुक्त कलेक्टर, रीवा
	73- मनगवा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनगवा
	74- रीवा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हुजूर, रीवा
	75- गुढ	डिप्टी कलेक्टर, रीवा
11- सीधी	76- चुरहट	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चुरहट
	77- सीधी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोपद बनास
	78- सिहावल	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिहावल
	79- चितरंगी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चितरंगी
	80- सिंगरौली	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिंगरौली
	81- देवसर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवसर
	82- धौहानी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मझौली
	83- ब्यौहारी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यौहारी
12- शहडोल (अ.ज.जा.)	84- जयसिंहनगर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर
	85- जैतपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जैतपुर
	86- कोतमा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोतमा
	87- अनूपपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनूपपुर
	88- पुष्परजगढ (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुष्परजगढ
	89- बाघवगढ (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बाघवगढ
	90- मानपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मानपुर
	91- बड़वारा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ढीमरखेड़ा

13- जबलपुर	95- पाटन	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन	
	96- बरगी	डिप्टी कलेक्टर, जबलपुर	
	97- जबलपुर पूर्व (अ.जा.)	संयुक्त कलेक्टर, जबलपुर	
	98- जबलपुर उत्तर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आधारताल, जबलपुर	
	99- जबलपुर केंद्र	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रांझी, जबलपुर	
	100- जबलपुर पश्चिम	अनुविभागीय अधिकारी, गोरखपुर, (राजस्व), जबलपुर	
	101- पनागर	अपर कलेक्टर (ग्रामीण), जबलपुर	
	102- सिहोरा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिहोरा	
	14- मण्डला (अ.ज.जा.)	103- शहपुरा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाहपुरा
		104- डिण्डोरी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डिण्डोरी
105- बिछिया (अ.ज.जा.)		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिछिया	
106- निवास (अ.ज.जा.)		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), निवास	
107- मण्डला (अ.ज.जा.)		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मण्डला	
116- केवलारी		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), केवलारी	
117- लखनादौन (अ.ज.जा.)		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लखनादौन	
118- गोटेगांव (अ.जा.)		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोटेगांव	
15- बालाघाट	108- बैहर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैहर	
	109- लांजी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लांजी	
	110- परसवाड़ा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), किरनापुर	
	111- बालाघाट	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालाघाट	
	112- वारासिवनी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वारासिवनी	
	113- कटंगी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटंगी	
	114- बरघाट (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बरघाट	
	115- सिवनी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी	
16- छिन्दवाड़ा	122- जुन्नारदेव (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जुन्नारदेव	
	123- अमरवाड़ा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अमरवाड़ा	
	124- चौरई	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चौरई	
	125- सौंसार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसार	
	126- छिन्दवाड़ा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छिन्दवाड़ा	
	127- परसिया (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), परसिया	
	128- पादुर्ना (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पादुर्ना	
	17- होशंगाबाद	119- नरसिंहपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहपुर
120- तेदूखेड़ा		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तेदूखेड़ा	
121- गाडरवारा		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गाडरवारा	
136- सिवनी-मालवा		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी-मालवा	
137- होशंगाबाद		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), होशंगाबाद	
138- सोहागपुर		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर	
139- पिपरिया (अ.जा.)		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिपरिया	
140- उदयपुरा		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बरेली	

18- विदिशा	141- भोजपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गौहरगंज
	142- सांची (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायसेन
	143- सिलवानी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेगमगंज
	144- विदिशा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा
	145- बासौदा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बासौदा
	156- बुधनी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बुधनी
	158- इछावर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इछावर
	173- खातेगांव	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खातेगांव
19- भोपाल	149- बैरसिया (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैरसिया
	150- भोपाल उत्तर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), संत हिरदाराम नगर, भोपाल
	151- नरेला	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोविन्दपुरा, भोपाल
	152- भोपाल दक्षिण पश्चिम	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टी.टी. नगर, भोपाल
	153- भोपाल मध्य	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नजूल शहर, भोपाल
	154- गोविंदपुरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एम.पी. नगर, भोपाल
	155- हुजूर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हुजूर
	159- सीहोर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सीहोर
20- राजगढ़	30- चाबौडा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चाबौडा
	31- राधोगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राधोगढ़
	160- नरसिंहगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहगढ़
	161- ब्यावरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा
	162- राजगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़
	163- खिलचीपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर
	164- सारंगपुर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगपुर
	165- सुसनेर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सुसनेर
	172- हाटपिपल्या	अपर कलेक्टर (विकास), देवास
21- देवास (अ.जा.)	157- आष्टा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आष्टा
	166- आगर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आगर
	167- शाजापुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाजापुर
	168- शुजालपुर	डिप्टी कलेक्टर, शाजापुर
	169- कालापीपल	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शुजालपुर
	170- सोनकच्छ (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनकच्छ
	171- देवास	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवास
	172- हाटपिपल्या	अपर कलेक्टर (विकास), देवास
22- उज्जैन (अ.जा.)	212- नामदा-खावरोद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खाचरौद
	213- महिदपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महिदपुर
	214- तराना (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तराना
	215- घटिया (अ.जा.)	अपर कलेक्टर (विकास), उज्जैन
	216- उज्जैन उत्तर	संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन
	217- उज्जैन दक्षिण	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन
	218- बड़नगर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़नगर
	223- आलोट (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आलोट

23 - मंदसौर	222- जावरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जावरा	
	224- मंदसौर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मन्दसौर	
	225- मल्हारगढ़ (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मल्हारगढ़	
	226- सुवासरा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सीतामऊ	
	227- गरोठ	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरोठ	
	228- मनासा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनासा	
	229- नीमच	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नीमच	
	230- जावद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जावद	
	24 - रतलाम (अ.ज.जा.)	191- अलीराजपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अलीराजपुर
192- जोबट (अ.ज.जा.)		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जोबट	
193- झाबुआ (अ.ज.जा.)		अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), झाबुआ	
194- थांदला (अ.ज.जा.)		अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), थांदला	
195- पेटलावद (अ.ज.जा.)		अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), पेटलावद	
219- रतलाम ग्रामीण (अ.ज.जा.)		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रतलाम ग्रामीण	
220- रतलाम सिटी		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रतलाम शहर	
221- सैलाना (अ.ज.जा.)		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सैलाना	
25- धार (अ.ज.जा.)		196- सरदारपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर
	197- गंधवानी (अ.ज.जा.)	अपर कलेक्टर (विकास), धार	
	198- कुक्षी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी	
	199- मनावर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर	
	200- धरमपुरी (अ.ज.जा.)	डिप्टी कलेक्टर, धार	
	201- धार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धार	
	202- बदनावर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बदनावर	
	209- डॉ. अम्बेडकरनगर-महू	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ.अम्बेडकरनगर-महू	
	26- इन्दौर	203- देपालपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देपालपुर
		204- इन्दौर-1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण
205- इन्दौर-2		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विजयनगर, इन्दौर	
206- इन्दौर-3		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जूनी इन्दौर, इन्दौर	
207- इन्दौर-4		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हातोद	
208- इन्दौर-5		अपर आयुक्ता, नगर निगम, इन्दौर	
210- राऊ		डिप्टी कलेक्टर, इन्दौर	
211- सांवेर (अ.जा.)		अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर	
27- खरगौन (अ.ज.जा.)		183- महेश्वर (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मण्डलेश्वर
		184- कसरावद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद
	185- खरगौन	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगौन	
	186- भगवानपुरा (अ.ज.जा.)	डिप्टी कलेक्टर, खरगौन	
	187- सेंधवा (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सेंधवा	
	188- राजपुर (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजपुर	
	189- पानरोमल (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पानरोमल	
	190- बड़वानी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वानी	

28- खण्डवा	174- वागली(अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वागली
	175- मांघाता	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुनासा
	177- खण्डवा (अ.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खंडवा
	178- पंधाना(अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंधाना
	179- नेपानगर(अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नेपानगर
	180- बुरहानपुर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बुरहानपुर
	181- भीकनगौव (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगौव
	182- बड़वाहा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाहा
29- बैतूल (अ.ज.जा.)	129- मुलताई	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुलताई
	130- आमला(अ.जा.)	डिप्टी कलेक्टर, बैतूल
	131- बैतूल	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैतूल
	132- घोड़ाडोंगरी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाहपुर
	133- भैसदेही (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैसदेही
	134- टिमरनी (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टिमरनी
	135- हरदा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरदा
	176- हरसूद (अ.ज.जा.)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरसूद

आदेश से
 अनुज जयपुरियार
 (अनुज जयपुरियार)
 प्रधान सचिव
 भारत निर्वाचन आयोग

NOTIFICATION

No. 434/MP-HP/2019 (1) :- The Election Commission of India, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification No. 434/MP-HP/2014 dated 24th February, 2014 as amended from time to time, hereby appoints the Officer/Officers of the Government of Madhya Pradesh specified in column 3 of the Table attached herewith, as the Assistant Returning Officer/Officers, to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency of the State of Madhya Pradesh as specified in column (1) of the said table in the performance of the function of such Returning Officer:-

No. & Name of Parliamentary Constituency	No. & Name of Assembly Constituency	Assistant Returning Officer
1	2	3
1 - MORENA	1 - Sheopur	Sub Divisional Officer (Revenue), Sheopur
	2 - Vijaypur	Sub Divisional Officer (Revenue), Vijaypur
	3 - Sabalgarh	Sub Divisionall Officer (Revenue), Sabalgarh
	4 - Joura	Sub Divisional Officer (Revenue), Joura
	5- Sumawali	Deputy Collector, Morena
	6 - Morena	Sub Divisional Officer (Revenue), Morena
	7 - Dimani	Deputy Collector, Morena
	8 - Ambah (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Ambah
2 - BHIND (SC)	9 - Ater	Sub Divisional Officer (Revenue), Ater
	10 - Bhind	Sub Divisional Officer (Revenue), Bhind
	11 - Lahar	Sub Divisional Officer (Revenue), Lahar
	12 - Mehgaon	Sub Divisional Officer (Revenue), Mehgaon
	13 - Gohad (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Gohad
	20 - Sewda	Sub Divisional Officer (Revenue), Seondha
	21 - Bhandar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Bhandar
	22 - Datia	Sub Divisional Officer (Revenue), Datia

3 - GWALIOR	14 - Gwalior Rural	Deputy Collector, Gwalior
	15 - Gwalior	Additional Collector, Gwalior
	16 - Gwalior East	Joint Collector, Gwalior
	17 - Gwalior South	Sub Divisional Officer (Revenue), (City Lashkar) Gwalior
	18 - Bhitwarwar	Sub Divisional Officer (Revenue), Bhitwarwar
	19 - Dabra (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Dabra
	23 - Karera (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Karera
	24 - Pohari	Sub Divisional Officer (Revenue), Pohari
4 - GUNA	25 - Shivpuri	Sub Divisional Officer (Revenue), Shivpuri
	26 - Pichhore	Sub Divisional Officer (Revenue), Pichhore
	27 - Kolaras	Sub Divisional Officer (Revenue), Kolaras
	28 - Bamori	Deputy Collector, Guna
	29 - Guna (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Guna
	32 - Ashoknagar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Ashoknagar
	33 - Chanderi	Sub Divisional Officer (Revenue), Chanderi
	34 - Mungaoli	Sub Divisional Officer (Revenue), Mungaoli
5 - SAGAR	35 - Bina (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Bina
	36 - Khurai	Sub Divisional Officer (Revenue), Khurai
	37 - Surkhi	Sub Divisional Officer (Revenue), Rahatgarh
	40 - Naryoli (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sagar
	41 - Sagar	Additional Collector, Sagar
	146 - Kurwai (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Kurwai
	147 - Sironj	Sub Divisional Officer (Revenue), Sironj
	148 - Shamshabad	Sub Divisional Officer (Revenue), Shamshabad
6 - TIKAMGARH (SC)	43 - Tikamgarh	Sub Divisional Officer (Revenue), Tikamgarh
	44 - Jatara (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Jatara
	45 - Prithvipur	Additional Collector, Niwari
	46 - Niwari	Sub Divisional Officer (Revenue), Niwari
	47 - Khargapur	Sub Divisional Officer (Revenue), Baldevgarh
	48 - Maharajpur	Sub Divisional Officer (Revenue), Nowgong
	51 - Chhatarpur	Sub Divisional Officer (Revenue), Chhatarpur
	52 - Bijawar	Sub Divisional Officer (Revenue), Bijawar
7 - DAMOH	38 - Deori	Sub Divisional Officer (Revenue), Deori
	39 - Rehli	Sub Divisional Officer (Revenue), Rehli
	42 - Banda	Sub Divisional Officer (Revenue), Banda
	53 - Malhara	Sub Divisional Officer (Revenue), Badamalhara
	54 - Pathariya	Sub Divisional Officer (Revenue), Pathariya
	55 - Damoh	Sub Divisional Officer (Revenue), Damoh
	56 - Jabera	Sub Divisional Officer (Revenue), Tendukheda
57 - Hatta (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Hatta	

8 - KHAJURAHO	49 - Chandla (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Lavkush Nagar
	50 - Rajnagar	Sub Divisional Officer (Revenue), Rajnagar
	58 - Pawai	Sub Divisional Officer (Revenue), Pawai
	59 - Gunnaor (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Gunnaor
	60 - Panna	Sub Divisional Officer (Revenue), Panna
	92 - Vijayraghavgarh	Sub Divisional Officer (Revenue), Vijayraghavgarh
	93 - Murwara	Sub Divisional Officer (Revenue), Katni
	94 - Bahoriband	Sub Divisional Officer (Revenue), Bahoriband
9 - SATNA	61 - Chitrakoot	Sub Divisional Officer (Revenue), Majhgawan
	62 - Raigaon (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Raghurajnagar
	63 - Satna	Additional Collector (Development) Satna
	64 - Nagod	Sub Divisional Officer (Revenue), Nagod
	65 - Maihar	Sub Divisional Officer (Revenue), Maihar
	66 - Amarpatan	Sub Divisional Officer (Revenue), Amarpatan
	67 - Rampur Baghelan	Sub Divisional Officer (Revenue), Rampur Baghelan
10 - REWA	68 - Sirmour	Sub Divisional Officer (Revenue), Sirmour
	69 - Semariya	Deputy Collector, Rewa
	70 - Teonthar	Sub Divisional Officer (Revenue), Teonthar
	71 - Mauganj	Sub Divisional Officer (Revenue), Hanumana
	72 - Deotalab	Joint Collector, Rewa
	73 - Mangawan (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Mangawan
	74 - Rewa	Sub Divisional Officer (Revenue), Huzur, Rewa
	75 - Gurh	Deputy Collector, Rewa
11 - SIDHI	76 - Churhat	Sub Divisional Officer (Revenue), Churhat
	77 - Sidhi	Sub Divisional Officer (Revenue), Gopad Banas
	78 - Sihawal	Sub Divisional Officer (Revenue), Sihawal
	79 - Chitrangi (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Chitrangi
	80 - Singrauli	Sub Divisional Officer (Revenue), Singrauli
	81 - Devsar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Deosar
	82 - Dhauhani (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Majhouli
	83 - Beohari (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Beohari
12 - SHAHDOL (ST)	84 - Jaisingnagar (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sohagpur
	85 - Jaitpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Jaitpur
	86 - Kotma	Sub Divisional Officer (Revenue), Kotma
	87 - Anuppur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Anuppur
	88 - Pushprajgarh (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Pushprajgarh
	89 - Bandhavgarh (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Bandhavgarh
	90 - Manpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Manpur
	91 - Barwara (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Dheemarkheda


13 - JABALPUR	95 - Patan	Sub Divisional Officer (Revenue), Patan
	96 - Bargi	Deputy Collector, Jabalpur
	97-Jabalpur Purba(SC)	Joint Collector, Jabalpur
	98 - Jabalpur Uttar	Sub Divisional Officer (Revenue), Adhartal, Jabalpur
	99 - Jabalpur Cantt.	Sub Divisional Officer (Revenue), Ranjhi, Jabalpur
	100 - Jabalpur Paschim	Sub Divisional Officer (Revenue), Gorakhpur, Jabalpur
	101- Panagar	Additional Collector (Rural) Jabalpur
	102 - Sihora (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sehora
14 -MANDLA (ST)	103 - Shahpura (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Shahpura
	104 - Dindori (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Dindori
	105 - Bichhiya (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Bichhiya
	106 - Niwas (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Niwas
	107 - Mandla (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Mandla
	116 - Keolari	Sub Divisional Officer (Revenue), Keolari
	117 - Lakhnadon (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Lakhnadon
15 - BALAGHAT	118 - Gotegaon (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Gotegaon
	108 - Baihar (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Baihar
	109 - Lanji	Sub Divisional Officer (Revenue), Lanji
	110 - Paraswada	Sub Divisional Officer (Revenue), Kirnapur
	111 - Balaghat	Sub Divisional Officer (Revenue), Balaghat
	112 - Waraseoni	Sub Divisional Officer (Revenue), Waraseoni
	113 - Katangi	Sub Divisional Officer (Revenue), Katangi
	114 - Barghat (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Barghat
16 - CHHINDWARA	115 - Seoni	Sub Divisional Officer (Revenue), Seoni
	122 - Junnardeo (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Junnardeo
	123 - Amarwara (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Amarwara
	124 - Churai	Sub Divisional Officer (Revenue), Chourai
	125 - Saunsar	Sub Divisional Officer (Revenue), Saunsar
	126 - Chhindwara	Sub Divisional Officer (Revenue), Chhindwara
	127 - Parasia (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Parasia
17 - HOSHANGABAD	128 - Pandhurna (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Pandhurna
	119 - Narsingpur	Sub Divisional Officer (Revenue), Narsinghpur
	120 - Tendukheda	Sub Divisional Officer (Revenue), Tendukheda
	121 - Gadarwara	Sub Divisional Officer (Revenue), Gadarwara
	136 - Seoni-Malwa	Sub Divisional Officer (Revenue), Seoni-Malwa
	137 - Hoshangabad	Sub Divisional Officer (Revenue), Hoshangabad
	138 - Sohagpur	Sub Divisional Officer (Revenue), Sohagpur
139 - Pipariya (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Pipariya	
140 - Udaipura	Sub Divisional Officer (Revenue), Bareilly	

18 - VIDISHA	141 - Bhojpur	Sub Divisional Officer (Revenue), Gouharganj
	142 - Sanchi (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Raisen
	143 - Silwani	Sub Divisional Officer (Revenue), Begumganj
	144 - Vidisha	Sub Divisional Officer (Revenue), Vidisha
	145 - Basoda	Sub Divisional Officer (Revenue), Basoda
	156 - Budhni	Sub Divisional Officer (Revenue), Budhni
	158 - Ichhawar	Sub Divisional Officer (Revenue), Ichhawar
	173 - Khategaon	Sub Divisional Officer (Revenue), Khategaon
19 - BHOPAL	149 - Berasia (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Tehsil, Berasia
	150 - Bhopal Uttar	Sub Divisional Officer (Revenue), Sant Hirdaram Nagar, Bhopal
	151 - Narela	Sub Divisional Officer, Govindpura, Bhopal
	152 - Bhopal Dakshin-Paschim	Sub Divisional Officer (Revenue), T.T. Nagar, Bhopal
	153 - Bhopal Madhya	Sub Divisional Officer (Revenue), Nuzul City, Bhopal
	154 - Govindpura	Sub Divisional Officer (Revenue), M. P. Nagar, Bhopal
	155 - Huzur	Sub Divisional Officer (Revenue), Tehsil Huzur
	159 - Sehore	Sub Divisional Officer (Revenue), Sehore
20 - RAJGARH	30 - Chachoura	Sub Divisional Officer (Revenue), Chachouda
	31 - Raghogarh	Sub Divisional Officer (Revenue), Raghogarh
	160 - Narsinghgarh	Sub Divisional Officer (Revenue), Narsinghgarh
	161 - Biaora	Sub Divisional Officer (Revenue), Biaora
	162 - Rajgarh	Sub Divisional Officer (Revenue), Rajgarh
	163 - Khilchipur	Sub Divisional Officer (Revenue), Khilchipur
	164 - Sarangpur (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sarangpur
	165 - Susner	Sub Divisional Officer (Revenue), Susner
21 - DEWAS (SC)	157 - Ashta (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Ashta
	166 - Agar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Agar
	167 - Shajapur	Sub Divisional Officer (Revenue), Shajapur
	168 - Shujalpur	Deputy Collector, Shajapur
	169 - Kalapipal	Sub Divisional Officer (Revenue), Shujalpur
	170 - Sonkatch (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sonkatch
	171 - Dewas	Sub Divisional Officer (Revenue), Dewas
	172 - Hatpipliya	Additional Collector (Development), Dewas
22 - UJJAIN (SC)	212 - Nagada-Khachrod	Sub Divisional Officer (Revenue), Khachrod
	213 - Mahidpur	Sub Divisional Officer (Revenue), Mahidpur
	214 - Tarana (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Tarana
	215 - Ghatiya (SC)	Additional Collector (Development) Ujjain
	216 - Ujjain Uttar	Joint Collector, Ujjain
	217 - Ujjain Dakshin	Sub Divisional Officer (Revenue), Ujjain
	218 - Badnagar	Sub Divisional Officer (Revenue), Badnagar
	223 - Alot (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Alot

23 - MANDSOUR	222 - Jaora	Sub Divisional Officer (Revenue), Jaora
	224 - Mandsour	Sub Divisional Officer (Revenue), Mandsaur
	225 - Malhargarh (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Malhargarh
	226 - Suwasara	Sub Divisional Officer (Revenue), Sitamau
	227 - Garoth	Sub Divisional Officer (Revenue), Garoth
	228 - Manasa	Sub Divisional Officer (Revenue), Manasa
	229 - Neemuch	Sub Divisional Officer (Revenue), Neemuch
	230 - Jawad	Sub Divisional Officer (Revenue), Jawad
24 - RATLAM (ST)	191 - Alirajpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Alirajpur
	192 - Jobat (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Jobat
	193 - Jhabua (ST)	Sub Divisional Magistrate, Jhabua
	194 - Thandla (ST)	Sub Divisional Magistrate, Thandla
	195 - Petlawad (ST)	Sub Divisional Magistrate, Petlawad
	219 - Ratlam Rural (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Ratlam
	220 - Ratlam City	Sub Divisional Officer (Revenue), Ratlam city
	221 - Sailana (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sailana
25 - DHAR (ST)	196 - Sardarpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sardarpur
	197 - Gandhwani (ST)	Additional Collector (Development), Dhar
	198 - Kukshi (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Kukshi
	199 - Manawar (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Manawar
	200 - Dharampuri (ST)	Deputy Collector, Dhar
	201 - Dhar	Sub Divisional Officer (Revenue), Dhar
	202 - Badnawar	Sub Divisional Officer (Revenue), Badnawar
	209- Dr. Ambedkarnagar-Mhow	Sub Divisional Officer (Revenue), Dr. Ambedkarnagar Mhow
26 - INDORE	203 - Depalpur	Sub Divisional Officer (Revenue), Depalpur
	204 - Indore - 1	Chief Executive Officer, Indore Development Authority
	205 - Indore - 2	Sub Divisional Officer (Revenue), Vijaynagar, Indore
	206 - Indore - 3	Sub Divisional Officer (Revenue), Juni Indore, Indore
	207 - Indore - 4	Sub Divisional Officer (Revenue), Hatod
	208 - Indore - 5	Additional Commissioner, Municipal Corporation, Indore
	210 - Rau	Deputy Collector, Indore
	211 - Sanwer (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sanwer

27 - KHARGONE (ST)	183 - Maheshwar (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Mandleshwar
	184 - Kasrawad	Sub Divisional Officer (Revenue), Kasrawad
	185 - Khargone	Sub Divisional Officer (Revenue), Khargone
	186 - Bhagwanpura (ST)	Deputy Collector, Khargone
	187 - Sendhawa (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Sendhwa
	188 - Rajpur (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Rajpur
	189 - Pansemal (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Pansemal
	190 - Badwani (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Barwani
28 - KHANDWA	174 - Bagali (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Bagli
	175 - Mandhata	Sub Divisional Officer (Revenue), Punasa
	177 - Khandwa (SC)	Sub Divisional Officer (Revenue), Khandwa
	178 - Pandhana (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Pandhana
	179 - Nepanagar (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Nepanagar
	180 - Burhanpur	Sub Divisional Officer (Revenue), Burhanpur
	181 - Bhikangaon (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Bhikangaon
	182 - Badwah	Sub Divisional Officer (Revenue), Barwaha
29 - BETUL (ST)	129 - Multai	Sub Divisional Officer (Revenue), Multai
	130 - Amla (SC)	Deputy Collector, Betul
	131 - Betul	Sub Divisional Officer (Revenue), Betul
	132 - Ghoradongri (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Shahpur
	133 - Bhainsdehi (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Bhainsdehi
	134 - Timarni (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Timarni
	135 - Harda	Sub Divisional Officer (Revenue), Harda
	176 - Harsud (ST)	Sub Divisional Officer (Revenue), Harsud

By Order



(ANUJ JAIPURIAR)
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA